



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2016/आ"काढ़ 22, 1938

No. 480]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2016/ASADHA 22, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 687(अ).**—अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और अंतर्देशीय जल का संरक्षण) नियम, 2016 को अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 54ज द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित उस तारीख से जब राजपत्र में यथाप्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 3 फरवरी, 2016, सा.का.नि. 144(अ) तारीख 3 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

उक्त अधिसूचना 3 फरवरी, 2016 को आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः केंद्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 54ज द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और अंतर्देशीय जल का संरक्षण) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :

(क) “अधिनियम” से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 अभिप्रेत है;

(ख) “कोई व्यक्ति” से अधिनियम की धारा 54छ के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई सर्वेक्षक है ;

(ग) “नितल जल” से जलयान के नितल में संगृहीत अपशिष्ट जल अभिप्रेत है;

(घ) “धारक टैंक” से ऐसा टैंक अभिप्रेत है जिसका उपयोग तेलीय मिश्रण या नितल जल या रसायनिकों और घृणाजनक पदार्थों के गंदे या धुलाई पूर्व जल के संग्रहण और भंडारण के लिए किया जाता है ;

(ड.) “अंतर्देशीय पत्तन” से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जिसमें अंतर्देशीय जलमार्ग पर जलयानों को सुरक्षित घाट पर लगाने, स्थौरा को लादने और उतारने की व्यवस्था, भूमि पर स्थौरा के भंडारण और जल आपूर्ति तथा इंधन की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित सुविधाएं हों;

(च) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) “गंदा जल” से ऐसा गंदा जल अभिप्रेत है जो इंधन या स्नेहक तेल और पृथक्कारक, मुख्य सहायक मशीनरी से अपशिष्ट स्नेहक तेल, या नितल जल पृथक्कारक, तेल फिल्टर उपस्कर या ड्रिप ट्रे से अपशिष्ट तेल है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जो परिभाषित नहीं किए गए हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. अनुसूची – 1 में विनिर्दिष्ट रसायनिक और पदार्थ धारा 54 घ के खंड (क) के प्रयोजन के लिए परिसंकटमय रसायनिक और घृणाजनक पदार्थ होंगे ।

4. अंतर्देशीय जल को संरक्षित करने के लिए प्रदूषण को निवारित और नियंत्रित करने के उपाय — इन नियमों के परिवर्तित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक अंतर्देशीय पत्तन तट पर तेलीय मिश्रण उपचार उपस्कर की व्यवस्था करेगा ।

5. इन नियमों के परिवर्तित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अनुसूची 3 के भाग 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान जो 1000 सकल टन से अधिक हो पर ऑन बोर्ड तेलीय मिश्रण उपचार उपस्कर की व्यवस्था होगी ।

6. एक अंतर्देशीय जलयान में अनुसूची 3 के भाग 2 में यथाविनिर्दिष्ट धारक टैंक या क्षमता की कोई समान व्यवस्था होगी ।

7. प्रत्येक अंतर्देशीय पत्तन इन नियमों की प्रवर्तित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट जलयान को अयुक्तियुक्त ढंग से विलंबित किए बिना 24 घंटों के आधार पर कार्यों की प्रकृति पूर्व आधारित स्वागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा ।

8. अंतर्देशीय पत्तन स्थौरा या यात्री टर्मिनल पर अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप और अभिलेख पुस्तकें अनुरक्षित करेगा ।

9. इन नियमों के प्रवर्तन में आने के एक वर्ष के पश्चात् किसी भी समय अधिनियम की धारा 54छ के अधीन सर्वेक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी, --

- (i) यदि यह पाया गया है कि अंतर्देशीय पत्तन में प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर और केंद्रीय सरकार द्वारा अध्याय 6 कख के अधीन बनाए गए नियमों, अधिनियम की धारा 54च के अधीन या राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप हटाने वाली सामग्री है, तो अनुसूची 8 में विहित प्ररूप में अनुपालन या अनुरूपता का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।
- (ii) यदि सर्वेक्षक द्वारा यह पाया जाता है कि अंतर्देशीय पत्तन में प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर और अधिनियम की धारा 54छ के अधीन या केंद्रीय सरकार द्वारा अध्याय 6कख के अधीन जारी किए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप हटाने वाली सामग्री की व्यवस्था नहीं की गई है, तो अनुसूची 6 में यथाविहित प्ररूप में कमियों को दर्शाने वाला और अंतर्देशीय पत्तन के स्वामी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निदेश देते हुए एक नोटिस जारी करेगा और नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट करेगा ।
- (iii) अनुपालन रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् और सर्वेक्षण का समाधान होने पर, अनुपालन या अनुरूपता का प्रमाणपत्र अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगा ।

### अनुसूची – 1

#### (नियम 3 देखें)

ढेर में या पैकेज रूप में, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट हैं, परिसंकटमय रसायनिकों या घृणाजनक पदार्थों की सूची

#### परिसंकटमय रसायन अथवा घृणाजनक पदार्थ

एसीटिक एनहाइड्राइड

एसीटोन

एसीटोन साईनोहाईड्रिन

एक्रोलिन

एक्रीलोनोईट्राइल

एल्ड्रिन

एलिलसोथियोसायनेट

एल्युमिनियम फास्फाइड  
 अमोनिया (28%आकुएऔस)  
 अमोनियम फास्फेट  
 एमिल मरकेप्टन  
 एनीलीन  
 एनीलीन हाईड्रोक्लोराइड  
 एंटीमनी कंपाउंड  
 एट्राजीन  
 एजीनफॉसमिथाइल (गुथाईन)  
 बेईयम एजाइड  
 बेरियमऑक्साइड  
 बेंजीन  
 बेंजीनहेक्साक्लोराइड आईसोमर्स (लिडेन)  
 बेंजीडाईन  
 बेरीलियम पाउडर  
 ब्रोमीन  
 ब्रोमोबेंजिल सायनाइड  
 एन-ब्यूटिल एक्रीलेट  
 ब्यूटाईरिक एसिड  
 केकोडिलिक कम्पाउंड्स  
 कोबैरिल (सेविन)  
 कार्बनडाईसल्फाइड  
 कार्बनटेट्राक्लोराइड  
 क्लोरीडेन  
 क्लोरोसीटोफीनोन  
 क्लोरोडाईनाईट्रोबेंजीन  
 क्लोरोफार्म  
 क्लोरोहाईड्रीन्स (कूड)  
 क्लोरो पिक्निन  
 क्रोमिक एसिड (क्रोमियम ट्राईआक्साइड)  
 कोकूलस (ठोस)  
 कॉपर कम्पाउंड्स  
 क्रीसोल्स  
 क्यूप्रीएथीलीन डाईएमीन  
 साइनाइड कम्पाउंड्स  
 सायनोजन  
 सायनोजिनक्लोराइड  
 डीओटी  
 डायक्लोरोएनीलीज  
 डायक्लोरोबेंजीन  
 डाईएल्ड्रीन  
 डायमीथोएट (साइगोन)

डायमेथिल एमीन (40%आकुएऔस)  
 डाईनाइट्रोएनीलीन्स  
 4.6-डाईनाइट्रोओथ्रोक्रीसोल्स  
 डायनाइट्रोफीनोल्स  
 एन्डोसल्फान (थायोडान)  
 एन्ड्रीन  
 एपीक्लोरोहाईड्रीन्स  
 एथिलब्रोमोएसीटेट  
 एथीलीन क्लोरोहाईड्रीन (2-क्लोरो-एथेनॉल)  
 एथिल पैराथिओन  
 फैंटीन एसीटेट (सूखा)  
 फ्लुओसिलिसिक एसिड  
 हैप्टाक्लोर  
 हैक्साक्लोरोबेंजीन  
 हैक्जाएथिल टेट्राफास्फेट  
 हाईड्रोसाइनिक एसिड  
 हाईड्रोफ्लोरिक एसिड (40%आकुएऔस)  
 आइसोप्रिन  
 लेड कंपाउंड  
 लिंडेन (गैमेक्सिन बीएचसी)  
 मैलाथिओन  
 मेरेयूरिक कंपाउंडस  
 मिथाइल एल्कोहल  
 मिथाइलिन क्लोराइड  
 मोलासेस  
 नैफथेलिन (मोल्टेम)  
 नैपथेलिनथिओरिया  
 निटसिस एसिड (90%)  
 ओलियम  
 पैराथियोन  
 पैराक्वैट  
 फिनोल  
 फास्फोरिक एसिड  
 फास्फोरस (प्राथमिक)  
 पॉलिहैलोजीनेटिडबाईफिनाइल्स  
 सोडियम पैंटाक्लोरोफिनेट (सोल्यूशन)  
 स्टेरिनमोनोमर  
 टौल्यून  
 टौल्यून डाईआइसोसाइनेट  
 टौक्साफिन  
 ट्राईटोलिल फास्फेट (ट्राईक्रिसिल फास्फेट)  
 2.4.5-टी

**तरलीकृत गैस (जब थोक में लाई जा रही हो)**

एसीटेलडीहाइड

एनहाइड्रस अमोनिया

ब्यूटाडीन

ब्यूटेन

ब्यूटेन / प्रोपेरी मिक्सर

ब्यूटेलीन

क्लोरीन

डाई मेथिलामीन

एथिल क्लोराइड

एथेन

एथीलीन

एथिलीन ऑक्साइड

मीथेन (एलएनजी)

मिथाइल एसिटीलिन प्रोपडलिन मिक्सचर

मेथिल ब्रोमाइड

मेथिल क्लोराइड

प्रोपेन

प्रोपीलीन

विनाइल क्लोराइड मोनोमर

निर्जल हाइड्रोजन क्लोराइड, निर्जल हाइड्रोजन फ्लोराइड या सल्फर डाईआक्साइड

**अनुसूची-2****(नियम 4 देखें)****अंतर्देशीय पत्तन के लिए तेलीय मिश्रण उपचार उपस्कर विहित करना****तेलीय मिश्रण उपचार उपस्कर****1. प्राथमिक उपचार:**

सेटिलिंग टैंक्स: एक एपीआई सेपरेटर के लिए प्रवाह तेल एकाग्रता 50-200 पीपीएम होगा।

**2. गौण उपचार:**

(i) **रसायन इमल्शन ब्रेकिंग / फ्लॉक्युलेशन एंड फ्लोटेशन:** 20-40 पीपीएम की जल चरण प्रवाह मात्रा इस तकनीक के साथ प्राप्त की जाएगी। इमल्शन ब्रेकिंग के लिए रसायनों की एक बड़ी विविधता उपलब्ध है। सबसे अधिक लोहा अथवा एल्यूमीनियम लवण और चर्गेड पॉलिमर इमल्शन ब्रेकिंग में प्रयुक्त होते हैं;

(ii) **फिल्ट्रेशन:** जल चरण प्रवाह तेल एकाग्रता लगभग 20 पीपीएम होगा, जो 5 पीएम से कम भी हो सकता है, जब फ्लॉक्युलेशन के रसायन डाले जाएं।

(iii) **हाइड्रोसाईक्लोन्स:** हाइड्रोसाईक्लोन्स में तेल और जल के बीच घनत्व विभाजन प्रयुक्त होता है और विभाजन सेन्ट्रीफ्यूगल फ़ोर्स से प्राप्त किया जाता है। बेकार जल प्रवाह एकाग्रता हाइड्रोसाईक्लोन्स से पाया जाएगा जो लगभग 5-15 पीपीएम है।

(iv) **सेन्ट्रीफ्यूगिस:** ये हाइड्रोसाईक्लोन्स के जैसे ही कार्य करता है। तथापि, ये स्थिर नहीं है, चूंकि इसका उपकरण घुमता है। इसका प्रयोग 3 चरण विभाजन (तेल, जल और ठोस) के लिए किया जा सकता है।

(v) **मॉलिक्यूलर क्लेसेन्स तेल / जल विभाजक:** इसका मुख्य सिद्धान्त मॉलिक्यूलर जैसे का मॉलिक्यूलर जमावट है। इस जमावट की प्राप्ति एक तीव्र चरण के लिए ट्रैक्लिल चरण से ऊर्जा पैटर्न में बदलाव के द्वारा होती है। तेल के जल सामग्री 10% से कम है और अक्सर 1% से कम होता है।

**3. तृतीयक उपचार:**

**जैविक उपचार:** यहां पर बेकार जल नदियों में भंग जैविक घटकों कमी के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग से पूरा किया है। तेल कचरे का फोर्ट उपचार, स्लज उपचार से प्राप्त स्टैंडर्ड एरोबिक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रवाह में तेल का डिस्चार्ज लेवल इस उपचार से 1 पीपीएम से कम गिर जाएगा।

**4. तट पर तेल का मिश्रण उपचार उपकरणों के लिए विनिर्देश:**

- (i) उपचार इकाई से प्रवाह की तेल सामग्री जहां तक संभव हो कम रूप में होगी किंतु किसी भी मामले में 15 पीपीएम से अधिक नहीं होगा।
- (ii) उपचार उपकरण मजबूत और निर्माण में मजबूत तथा उपयोग के लिए उपयुक्त होंगे।
- (iii) कोई भी विद्युतीय उपकरण जो कि इस उपचार इकाई का भाग है को गैर खतरनाक क्षेत्र में अवस्थित किया जाएगा अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जो खतरनाक क्षेत्र में प्रयुक्त के लिए सुरक्षित हो।
- (iv) उपचार इकाई को ऐसा बनाया जाएगा कि स्वयं ही कार्य करे, खराबी होने पर किसी भी डिस्चार्ज से बचने के लिए एक चूक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाएगा।
- (v) इस प्रणाली को प्रचालन में लाने के लिए कम से कम रखरखाव और ध्यान देने की जरूरत होगी। यह बिना ध्यान दिए सामान्य झूटी के कम से कम चौबीस घंटे प्रचालन करने में कुशल होगा।
- (vi) पीपीएम डिस्प्ले और अलार्म प्रदान किया जाएगा।
- (vii) पीपीएम अलार्म की परिशुद्धता सक्षम व्यक्ति द्वारा निर्देशानुसार समय-समय पर विनिर्माता के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाएगी। जांच प्रमाणपत्र की प्रति, जांच की तारीख का प्रमाण-पत्र देना निरीक्षण उद्देश्य के लिए पत्तन द्वारा अपने पास रखा जाएगा।

**अनुसूची-3****(नियम 5 और 6 देखें)****अंतर्देशीय जलयान के लिए तेलीय मिश्रण उपचार उपस्कर विहित करना****भाग-I****तेल नित्यंदक उपस्कर (15 पीपीएम नितल, सैप्रेटरकारक) :-**

- (1) 15 पीपीएम नितल सेपरेटर का मजबूती से निर्माण किया जाएगा और पोत पर अपनी इच्छित स्थान को ध्यान में रखते हुए जलयान के प्रयोग के लिए उपयुक्त होगा।
- (2) यह, यदि उन स्थानों में लगाए जाने इरादा होगा जहां ज्वलनशील वातावरण मौजूद हो, ऐसे जगहों के लिए प्रासंगिक सुरक्षा विनियमों के साथ पालन किया जाएगा।
- (3) 15 पीपीएम नितल सेपरेटर ऐसा बनाया जाएगा जो स्वयं कार्य करेगा। तथापि खराबी होने पर किसी भी डिस्चार्ज से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाएगा।
- (4) इमल्सिफिएड नितल जल के लिए नितल से तेल नितल जल अथवा तेल और जल से वायु के 15 पीपीएम नितल सेपरेटर के लिए फिड में परिवर्तन किसी मिश्रण जिसमें तेल के 15 पीपीएम से अधिक हो ओवरबोर्ड डिस्चार्ज का परिणाम नहीं होगा।
- (5) इस प्रणाली को प्रचालन में लाने के लिए कम ध्यान की जरूरत होगी। इंजन कक्ष नितल के मामले में, इस प्रणाली को प्रचालन में लाने के लिए किसी बोल्व और अन्य उपकरण को सुधारने की जरूरत नहीं होगी। यह उपकरण बिना ध्यान दिए सामान्य झूटी के कम से कम चौबीस घंटे प्रचालन करने में कुशल होगा।
- (6) 15 पीपीएम नितल सेपरेटर के सभी काम कर रहे भाग जो खराब हो सकते हैं उनकी सुगमता से मरम्मत की जाएगी।

**15 पीपीएम नितल अलार्म:-**

- (1) 15 पीपीएम नितल अलार्म समुद्री पर्यावरण के हालात में जंग से संघर्ष करेंगा।
- (2) कोई विद्युतीय उपकरण जो 15 पीपीएम नितल अलार्मका भाग है को गैर खतरनाक क्षेत्र में अवस्थित किया जाएगा।

- (3) पीपीपी डिस्प्ले प्रदान किया जाएगा। विनिर्माता के दिशा-निर्देशानुसार ऑनबोर्ड जांच की जाएगी।
- (4) प्रतिक्रिया समय, यह वो समय है जो सैम्पल में एक परिवर्तन के बीच गुजरता है जो 15 पीपीएम नितल अलार्म को सप्लाय कर रहा है और पीपीएम डिस्प्ले पांच सेंकड से अधिक नहीं होगा।
- (5) 15 पीपीएम नितल अलार्म दिनांक, समय और अलार्म स्थिति और 15 पीपीएम नितल विभाजक का प्रचालन स्थिति दर्ज करेगा। दर्ज करने वाला उपकरण दर्ज डाटा को कम से कम अठारह महीनों तक रखा जाएगा।
- (6) 15 पीपीएम नितल अलार्म की परिशुद्धता को विनिर्माता के दिशा-निर्देशानुसार नवीकरण सर्वेक्षण में जांच किया जाएगा। 15 पीपीएम नितल अलार्म के लिए जांच प्रमाण-पत्र, अंतिम जांच की तारीख का प्रमाण-पत्र निरीक्षण उद्देश्य के लिए ऑन बोर्ड रखा जाएगा।

## भाग - II

### अंतर्देशीय जलयान के लिए धारक टैंक :-

नितल जल धारक टैंकों की क्षमता इस प्रकार होगी:

150 जीआरटी से कम जलयान अथवा 750 किलोवाट तक मुख्य इंजन रेटिंग .....1.0 एम3

जलयान (>150 जीआरटी और <400 जीआरटी) अथवा 1000 किलोवाट तक मुख्य इंजन रेटिंग 1.5 एम

जलयान (>400 जीआरटी और <3000 जीआरटी) अथवा मुख्य इंजन रेटिंग

(>1000 किलोवाट और < 20,000 किलोवाट ) क्षमता:  $1.5 + (\text{पी}-1,000)/1,500$ , एम3

जलयान (>3000 जीआरटी) अथवा मुख्य इंजन रेटिंग (>20,000 किलोवाट )

क्षमता:  $14:2+0.2 (\text{पी}-20,000)/1,500$  एम3

(पी=किलोवाट में मुख्य इंजन रेटिंग)

वर्ष 150 जीआरटी से कम अंतर्देशीय के जलयान के लिए, जहां पर कम क्षेत्र के कारण, 1.0 एम3 धारक टैंक उपलब्ध करवाने के लिए व्यवहार्य नहीं है, सर्वेक्षक 750 किलोवाट इंजन रेटिंग के लिए 250 किलोवाट का अंतर्देशीय के जलयान के लिए 0.5 एम3 धारक टैंक और 250 किलोवाट इंजन रेटिंग से कम के लिए 0.25 एम3 उपलब्ध करवाने के लिए अनुमति देगा।

## अनुसूची -4

### (नियम 7 देखें)

#### तेल या तैलीय मिश्रण, गंदगी या अपशिष्ट और अभिहित प्रदूषकों के लिए प्राप्ति सुविधाओं के ब्यौरे

क. सामान्य उपबंध : (1) उपचार सुविधा अंतर्देशीय पत्तन पर स्थापित की जाएगी परन्तु संग्रहण उपकरण या तो चल हो सकते हैं अथवा किसी केन्द्रीय बिन्दु पर तट आधारित हो सकते हैं।

(2) तैलीय अपशिष्टों का संग्रहण या तो प्लवमान ग्रहण सुविधाओं जैसे पर्याप्त क्षमता वाले बार्जों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें गैर प्रणोदित होने पर या तो खींच कर लाया जा सकता है अथवा वे स्व प्रणोदित हो सकते हैं अथवा स्थायी ग्रहण सुविधाओं के द्वारा किया जा सकता है जैसे अंतर्देशीय पत्तन में एक तट पर आधारित केन्द्रीय अपशिष्ट संग्रहण बिन्दु। राज्य सरकार अंतर्देशीय पत्तन के प्रचालन के आकार और उसकी प्रकृति के आधार पर सुविधा का प्रकार निश्चित कर सकती है।

#### ख. परिसंकटमय रसायनिकों या घृणाजनक पदार्थों के लिए पत्तन प्राप्ति सुविधाएं:-

##### संघटकों के ब्यौरे :

##### बफरिंग और इक्वालाइजिंग

बफरिंग/इक्वालाइजिंग टैंकों में, टैंकों को बफर्स के रूप में उपयोग करते हुए प्रक्रिया बहाव लगातार रहता है तथा जल प्रवाह की संरचना को तैलीय अपशिष्ट के कई बैचों के मिश्रण द्वारा इक्वालाइज किया जाता है।

##### प्लेट विभाजन

प्लेटविभाजकविभाजन के सतही क्षेत्र को बढ़ाने के सिद्धांत पर काम करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बेहतर विभाजन प्राप्त होता है। किसी प्लेट विभाजक के साथ हासिल किया जा सकने वाला जल चरण प्रवाह लगभग 20-100 पीपीएम होता है।

**फ्लोक्कुलेशन**

इस तकनीक से 20-40 पी पी एम की जल चरण प्रवाह मात्रा हासिल की जाएगी। इमल्शन ब्रेकिंग के लिए कई किस्मों के रसायन उपलब्ध हैं। ज्यादातर इमल्शन ब्रेकिंग के लिए लैड अथवा एल्यूमीनियम साल्ट तथा आयनीकृत पोलिमर्स उपयोग में लाए जाते हैं।

**फ्लोटेशन**

यह एक यूनिट प्रचालन है जिसका उपयोग किसी तरल चरण से ठोस अथवा तरल कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। एक अपशिष्ट जल टैंक में हवा के बुलबुले डाले जाते हैं तथा उठते हुए बुलबुले पपड़ीनुमा तेल कणों से जुड़ जाएँगे और उनकी उछाल को बढ़ाएँगे। एकीकृत कण तथा गैस के बुलबुले एक साथ सतह पर आ जाएँगे और तैरते कणों को एकत्रित किया जा सकता है।

**जैविक उपचार**

यहाँ अपशिष्ट जल प्रवाहों में घुले हुए जैविक घटकों की निम्नीकरण के लिए माइक्रो-जीवाश्मों का उपयोग किया जाता है। तैलीय अपशिष्ट के उपचार के लिए मानक वायुजीवी सक्रियकृत गाद उपचार का उपयोग किया जा सकता है। इस उपचार द्वारा प्रवाह में तेल के रिसाव स्तर को 1 पी पी एम से कम किया जाएगा।

**ग. तेल या तैलीय मिश्रण या गंदगी या अपशिष्ट के लिए पत्तन प्राप्ति सुविधाएँ**

अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट

**अनुसूची -5**

(नियम 8 देखें)

अंतर्देशीय पत्तन ----- में (अवधि - से - तक) अभिहित प्रदूषकों की प्राप्ति के लिए अभिलेख बही

क्रम संख्या	जलयान का नाम	अभिहित प्रदूषकों/तेल/तैलीय मिश्रण या गंदगी या अपशिष्ट की प्राप्ति का समय और तारीख	अंतर्देशीय पत्तन का नाम	प्राप्त प्रदूषक का प्रकार	प्राप्त प्रदूषकों की मात्रा	प्राप्ति के लिए उदगृहीत फीस	निपटान की अंगीकृत पद्धति	टिप्पणियाँ
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

प्राधिकारी की मुद्रा अथवा मुहर



## अनुसूची 6

[नियम 9 (ii) देखें]

धारा 54 छ (1), (2) और (3) के अधीन नोटिस का प्रारूप

(राज्य सरकार का नाम) ----- की सरकार

(धारा 54 छ (1), (2) और (3) के अधीन नोटिस )

आपके ध्यान में यह लाया जाता है कि अंतर्देशीय पत्तन (पत्तन का नाम)..... का निरीक्षण अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 54छ के उपबंध के अधीन .....(समय) .....(तारीख और वर्ष) को किया गया था। निरीक्षण में निम्नलिखित कमियाँ (कृपया प्रत्येक कमी के सामने अतिक्रमण किए गए सुसंगत आदेश या नियम का उल्लेख करें) पाई गईं।

कमियाँ सुसंगत नियम अथवा आदेश

1. ....
2. ....
- 3.....
4. ....

आपको एतद्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक कार्रवाई करने की तथा अनुपालन की रिपोर्ट देने की सलाह दी जाती है

1. ....
2. ....
- 3.....
4. ....

इस बात का नोटिस लें कि जब तक उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक आपके कार्गो / यात्री टर्मिनल पर सभी संक्रियाएं निलंबित रहेंगी।

जारी करने का स्थान : .....

जारी करने की तारीख : .....

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले सर्वेक्षक का नाम और हस्ताक्षर)

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील अथवा मुहर, जो उचित हो)

## अनुसूची 7

[नियम 9 (iii) देखें]

..... सरकार (राज्य सरकार का नाम)

संदर्भ संख्या :

अनुपालन /समरूपता प्रमाण पत्र (अनुसूची VI के संदर्भ में)

अंतर्देशीय पत्तन का नाम और पता :

यह प्रमाणित किया जाता है कि (पत्तन का नाम)..... को अनुसूची VI में कथित कमियों को सत्यापित करने के लिए अनुपालन निरीक्षण किया गया। पत्तन अब अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 54 जी में जैसे की कहा गया है के अनुसार अपेक्षाओं के साथ अनुपालन कर रहा है और इसलिए प्रचालन को दुबारा आरंभ करने के लिए अनुमति दी गई है।

अनुपालन की सत्यापन तारीख ..... है।

जारी करने का स्थान .....

जारी करने की तारीख .....

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले

सर्वेक्षक का नाम और हस्ताक्षर)

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील अथवा मुहर, जो उचित हो)

## अनुसूची 8

[नियम 9 (i) देखें]

..... सरकार (राज्य सरकार का नाम)

अनुपालन / समरूपता प्रमाण पत्र

(धारा 54 एफ और 54 एच के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र / क्रम संख्या)

अंतर्देशीय पत्तन का नाम और पता :

यह प्रमाणित किया जाता है कि (पत्तन का नाम)..... के उपकरण, सामग्री, रोकथाम, व्यवहार और अगवानी सुविधाओं की उपयुक्तता के संबंध में संबंधित प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन के लिए निरीक्षण किया गया। अंतर्देशीय पत्तन कथित प्रावधानों के अनुपालन को दर्शाता है और इसलिए अंतर्देशीय पत्तन को अब अनुपालन अथवा समरूपता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जारी की गई तारीख से इस अनुपालन अथवा समरूपता की वैधता ..... को समाप्त होती है, किंतु एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं वह भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन :

1. अन्य प्रचालनों के परे अंतर्देशीय जल के निवारण एवं संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी।
2. पत्तन को प्रभावित करने वाली तेल प्रदूषण अथवा घटनाओं को जारी करने वाले प्राधिकारी को अधिसूचित की जाएगी।
3. पत्तन प्रचालन से प्रभावित प्रदूषण के संबंध से होता हुआ होने वाली किसी भी प्रकार की घटना जारी करने वाले प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा।
4. अंतर्देशीय जल के प्रदूषण के निवारण और संरक्षण को प्रभावित करने वाली तेलीय जल उपकरण के किसी भी खराबी अथवा दोष के अथवा में जारी करने वाले प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा।
5. अंतर्देशीय पत्तन में नए विकास से संबंधित किसी भी गतिविधि को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में समीक्षा आयोजित की जा सके।

अनुपालन की सत्यापन तारीख .....

जारी करने का स्थान .....

जारी करने की तारीख .....

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले

सर्वेक्षक का नाम और हस्ताक्षर)

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील अथवा मुहर, जो उचित हो)

[फा. सं. एन. डब्ल्यू.-11015/1/2004-आई. डब्ल्यू. टी. (भाग-II)]

आलोक श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2016

**G.S.R. 687(E).**—Whereas, the draft Inland Vessels (Prevention and Control of Pollution and Protection of Inland Water) Rules, 2016, were published, in exercise of the powers conferred by section 54H of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 sub-section (i) dated the 3<sup>rd</sup> February, 2016, vide GSR 144(E) dated 3<sup>rd</sup> February, 2016 as required by sub-section (1) of section 74 of the said Act inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public.

The said notification was made available to the general public on the third day of February i.e., the 3<sup>rd</sup> February, 2016.

And, whereas, objection and suggestions received in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 54H of the Inland Vessels Act, 1917, the Central Government makes the following Rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Inland Vessels (Prevention and Control of Pollution and Protection of Inland Water) Rules, 2016.  
(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires. -
  - (a) “Act” means the Inland Vessels Act, 1917;
  - (b) “any person” means any person authorised under section 54G of the Act which includes a survey or appointed under sub-section (1) of section 4 of the Act;
  - (c) “bilge water” means waste water collected in bilge of the vessel;
  - (d) “holding tank” means a tank used for the collection and storage of oily mixture or bilge water or sludge or pre wash of chemicals and obnoxious substances;
  - (e) “inland port” means a port located on Inland Waterway with the requisite facilities for safe berthing of vessels, loading and unloading arrangement of cargo, storage of cargo on land and provide water supply and fuel;
  - (f) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules; and
  - (g) “sludge” means sludge from the fuel or lubricating oil separators, waste lubricating oil from main auxiliary machinery, or waste oil from bilge water separator, oil filtering equipment or drip trays.
- (2) Words and expressions used in rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.
3. The chemicals and substance specified in Schedule I shall be the hazardous chemicals and obnoxious substances for the purpose of a clause (a) section 54D.
4. Measures to prevent and control of pollution to protect inland water. - Every inland port shall provide oily mixture treatment equipment on shore as specified in Schedule II, within one year from the date of coming into force of these rules.
5. Every inland vessel above 1000 Gross Tonnes shall be equipped with oily mixture treatment equipment or board as specified in Part I of Schedule III, within one year from the date of coming into force of these rules.
6. Every inland vessel shall be equipped with a holding tank or equivalent arrangement of capacity as specified in Part II of Schedule III.
7. Every inland port shall provide reception facilities specified in Schedule IV, based on the nature of operation taking place on twenty four hours basis without delaying the vessel unreasonably, within one year from the date of coming into force of these rules.
8. An inland port at cargo or passenger terminal shall maintain Form and Record Books as specified in Schedule V.

9. At any time after one year from the coming into force of these rules, an inspection shall be carried out under section-54G of the Act by the surveyor or any person authorised by the State Government in this behalf and the following actions shall be taken,-

(i) if the Inland port is found to be provided with pollution containment equipment and removing material conforming to the orders of the State Government under section 54F of the Act or the rules made thereunder by the Central Government under Chapter VIAB, a certificate of compliance or conformity shall be issued in the Form prescribed in Schedule VIII;

(ii) if the surveyor finds that the Inland port is not provided with pollution containment equipment and removing material conforming to the orders of the State Government under section 54F of the Act or the rules made thereunder by the Central Government under Chapter VIAB, a notice in the Form as prescribed in Schedule VI pointing out deficiencies and directing the owner of the Inland port to take remedial action and report compliance within a period of thirty days from the date of receipt of notice; and

(iii) after compliance is reported and the surveyor is satisfied, a certificate of compliance or conformity shall be issued in the Form specified in Schedule VII.

### SCHEDULE I

(see rule 3)

#### List of hazardous chemicals or obnoxious substances in bulk or in packaged form including wastes

##### Hazardous chemicals or Obnoxious Substances

Acetic anhydride  
 Acetone  
 Acetone Cyanohydrin  
 Acrolein  
 Acrylonitrile  
 Aldrin  
 Allyl isothiocyanate  
 Aluminium phosphide  
 Ammonia (28% aqueous)  
 Ammonium phosphate  
 Amyl mercaptan  
 Aniline  
 Aniline hydrochloride  
 Antimony compounds  
 Atrazine  
 Azinphos methyl (Guthion)  
 Barium azide,  
 Barium oxide  
 Benzene  
 Benzenehexachloride isomers (Lindane)  
 Benzidine  
 Beryllium Powder  
 Bromine  
 Bromobenzyl cyanide  
 n-Butyl acrylate  
 Butyric acid  
 Cacodylic compounds  
 Carbaryl (Sevin)

Carbon disulphide  
Corbontetrachlride  
Chloridane  
Chloro~Cetophenone  
Chlorodinitrobenzene  
Chloroform  
Chlorolhydrins(crude)  
Chloropicrin  
Chromic acid (Chromium trioxide)  
Cococculus (Solid)  
Copper compounds  
Cresols  
Cupriethylenediamine  
Cyanide compound  
Cyanogen bromide  
Cyanogen chloride  
DOT  
Dichloroanilices  
Dichlorobenzenes  
Dieldrin  
Dimethoate (Cygon)  
Dimethyl amine (40%aqueous))  
Dinitroanillnes  
4.6-Dinitroorthocresol  
Dinitrophenols  
Endosulphan (Thiodan)  
Endrin  
Epichlorohydrin  
Ethyl bromoacetate  
Ethylene chlorohydrin (2-Chloro-ethanol)  
Ethyl parathion  
Fentin acetate (dry)  
Fluosilicic acid  
Heptachlor  
Hexachlorobenzene  
Hexaethyltetraphosohate  
Hydrocyanic acid  
Hydrofluoric acid n(40% aqueous)  
Isoprene  
Lead compounds  
Lindane (Gammexane. BHC)

---

Malathion  
Mereuric compounds  
Methyl alcohol  
Methylene chloride  
Molasses  
Naphtalene (moltem)  
Naphthylthiourea  
Nitric acid (90%)  
Oleum  
Parathion  
Paraquat,  
Phenol  
Phosphoric acid  
Phosphorus (elemental)  
Polyhalogenated biphenyls  
Sodium pentachlorophenate (solution)  
Styrene monomer  
Toluene  
Toluene diisocyanate  
Toxaphene  
Tritolyl phosphate (Tricresyl phosphate)  
2. 4. 5- T  
Liquefied Gases (when carried in bulk)  
Acetaldehyde  
Anhydrous Ammonia  
Butadiene  
Butane  
Butane/Propane mixtures  
Butylenes.  
Chlorine  
Dimethylamine  
Ethyl chloride  
Ethane  
Ethylene  
Ethylene Oxide  
Methane (LNG)  
Methyl Acetylene Propadiene mixture  
Methyl Bromide  
Methyl Chloride  
Propane  
Propylene  
Vinyl Chloride Monomer  
Anhydrous Hydrogen Chloride Anhydrous Hydrogen Fluoride or Sulphur Dioxide.

**SCHEDULE II**

(see rule 4)

Prescription for oily mixture treatment equipment for Inland Port

**Oily Mixture treatment equipments.****1. Preliminary treatment:****Settling tanks:** The effluent oil concentration for an API separator shall be 50-200 ppm.**2. Secondary treatment:**(i) **Chemical emulsion breaking or flocculation and floatation:** The water phase effluent quantity of 20-40 ppm shall be achieved with this technique. A large variety of chemicals are available for emulsion breaking. Most frequently iron or aluminum salts and charged polymers are used for emulsion breaking;(ii) **Filtration:** The water phase effluent oil concentration shall be approximately 20 ppm, which can be lowered to 5 ppm, when flocculation chemicals are added.(iii) **Hydrocyclones:** Hydrocyclones use the density difference between oil and water for separation and separation is achieved by centrifugal force. The waste water effluent concentration shall be reached with hydrocyclones is approximately 5-15 ppm.(iv) **Centrifuges:** They work on the same principle as hydrocyclones. However, they are not static, as the equipment is rotated. They can be used for 3 phase separation (Oil, water and solids).(v) **Molecular Coalescence oil or water separator:** The main principle is the molecular coagulation of like molecules. The coagulation is achieved by changing the energy pattern from a tranquil phase to a rapid phase. The water content of the oil is less than 10% and frequently less than 1%.**3. Tertiary treatment:****Biological treatment:** Here the use of micro-organisms for degrading dissolved organic components in wastewater streams is done. For treatment of oily waste, standard aerobic activated sludge treatment can be used. The discharge level of oil in the effluent shall be reduced to less than 1 ppm by this treatment.**4. Specification for oily mixture treatment equipment on shore:**

(i) The oil content of the effluent from the treatment unit shall be as minimum as possible but in no case it exceed 15 ppm

(ii) The treatment equipment shall be strong and robust in construction and suitable for use.

(iii) Any electrical equipment that is part of the treatment unit shall be located in a non-hazardous area or certified by the competent authority as safe for use in hazardous areas.

(iv) The treatment unit shall be so designed that it functions automatically. A fail-safe arrangement to avoid any discharge in case of malfunction shall be provided.

(v) The system shall require minimum maintenance and attention to bring it into operation. It shall be capable of operating at least twenty four-hours of normal duty without attention.

(vi) A ppm display and alarm shall be provided

(vii) The accuracy of the ppm alarm shall be checked as per manufacturer's instruction periodically as directed by the competent person. A copy of calibration certificate, certifying the date of calibration shall be retained by the port for inspection purpose.

**SCHEDULE III**

(see rules 5 and 6)

Prescription for oily mixture treatment equipment for Inland vessel

**Part -I****Oil filtering equipment (15 ppm bilge, separator):-**

(1) The 15 ppm bilge separator shall be strongly constructed and suitable for vessel's use bearing in mind its intended location on the vessel.

(2) It shall, if intended to be fitted in locations where flammable atmospheres may be present, comply with the relevant safety regulations, for such spaces.

(3) The 15 ppm bilge separator shall be so designed that it functions automatically. However, safe arrangements to avoid any discharge in case of malfunction shall be provided.

(4) Changing the feed to the 15 ppm bilge separator from bilge to oil bilge water to emulsified bilge water, or from oil and water to air shall not result in the discharge overboard of any mixture containing more than 15ppm of oil.

(5) The system shall require the minimum of attention to bring it into operation. In the case of engine room bilges, there shall be no need for any adjustment to valves and other equipment to bring the system into operation. The equipment shall be capable of operating for at least twenty-four hours of normal duty without attention.

(6) All working parts of the 15 ppm bilge separator which are likely to be damaged shall be easily accessible for maintenance.

#### **15 ppm bilge alarm : -**

(1) The 15 ppm bilge alarm shall resist corrosion in the conditions of the marine environment.

(2) Any electrical equipment which is part of the 15 ppm bilge alarm shall be placed in a non-hazardous area.

(3) A ppm display shall be provided. Onboard testing according to manufacturer's instructions shall be carried out.

(4) The response time, that is the time which elapses between an alteration in the sample being supplied to the 15 ppm bilge alarm and the ppm display shall not exceed five seconds.

(5) The 15 ppm bilge alarm shall record date, time and alarm status and operating status of the 15 ppm bilge separator. The recording device shall also store data for at least eighteen months.

(6) The accuracy of the 15 ppm bilge alarms shall be checked at renewal survey according to the manufacturer's instructions. The calibration certificate for the 15 ppm bilge alarm, certifying date of last calibration check, shall be retained on board for inspection purpose.

### **Part-II**

#### **Holding tank for Inland vessel:-**

The capacity of bilge water holding tanks shall be as follows: -

Vessels below 150 grt or main engine rating upto 750kw.... 1.0m<sup>3</sup>

Vessels (>150grt and <400grt) or main engine rating upto 1000Kw 1.5 m

Vessels (>400 grt and <3000 grt) or main engine rating

(>1000KW and <20,000kw) capacity:  $1.5 + (P - 1,000) / 1,500$  m<sup>3</sup>

Vessels (>3000grt) or main engine rating (>20,000kw)

Capacity:  $14.2 + 0.2 (P - 20,000) / 1,500$  m<sup>3</sup>

\*(P=main engine rating in kw)

Provided that for Inland Vessels of less than 150 grt, where due to space constraints, it is not practicable to provide 1.0m<sup>3</sup> holding tank, the surveyor may allow for providing 0.5m<sup>3</sup> holding tank for Inland Vessels of 250 kw to 750 kw engine rating and 0.25m<sup>3</sup> for less than 250 KW engine rating.

### **SCHEDULE-IV**

(see rule 7)

#### **Details of reception facilities for oil or oily mixture, sludge or waste and designated pollutants.**

A. **General provision:** (1) The treatment facility shall be established at Inland Port, but the collection equipment can either be mobile or shore based at a central point.

(2) Collection of oily wastes can be either by floating reception facilities like barges of adequate capacity either towed if non-propelled or self propelled or by fixed reception facilities such as one central shore based waste collection point in inland port. The State Government may prescribe the type of facility based on the size and nature of operation of the Inland port.

#### **B. Port reception facilities for hazardous chemicals or obnoxious substances : -**

##### **Details of components:**

##### **Buffering and equalizing**

In buffering/equalizing tanks, the process flow is continuous by using the tanks as buffers and the composition of the waste stream is equalised by mixing several batches of oily waste.



**Plate Separation**

Plate separators work on the principle of increasing the surface area of separation, resulting in a better separation. The water phase effluent reached with a plate separator is approximately 20-100ppm.

**Flocculation**

The water phase effluent quantity of 20-40 ppm shall be achieved with this technique. A large variety of chemicals are available for emulsion breaking. Most frequently iron or aluminum salts and charged polymers are used for emulsion breaking.

**Flotation**

This is a unit operation used to separate solid or liquid particles from a liquid phase. Air bubbles are injected into a waste water tank and the rising air bubbles will attach to the flocculated oil particles and increase their buoyancy. The combined particles and gas bubbles will rise to the surface and the floating particles can be collected.

**Biological treatment**

Here the use of micro-organisms for degrading dissolved organic components in wastewater streams is done. For treatment of oily waste, standard aerobic activated sludge treatment can be used. The discharge level of oil in the effluent shall be reduced to less than 1 ppm by this treatment.

**C. Port reception facilities for oil or oily mixtures or sludge or waste**

As specified is Schedule II.

**Schedule V**

(see rule 8)

**Record book for receipt of designated pollutants in inland port.....(period from.....to.....)**

S. No.	Name of the vessel	Time and date of receipt of designated pollutants/oil/oily mixture or sludge waste	Name of Inland port	Type of pollutant received	Quantity of pollutants received	Fee levied for the receipt	Method of disposal adopted	Remarks
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Name and signature of authorised official

Seal or stamp of the authority

**Schedule VI**

{ see rule 9 (ii) }

**Format for Notice under section 54G (1), (2) and (3)****Government of..... (Name of State Govt)****(NOTICE UNDER SECTION 54G (1), (2) and (3))**

This is to bring to your notice that Inland port (name of the port).....was inspected under the provision of 54G of the Inland Vessels Act, 1917 on (date and year).....at (time)..... The inspection revealed the following deficiencies (please mention the relevant order or rules violated against each deficiency)

Deficiencies	Relevant rules or Order
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....
4. ....	.....

You are hereby advised to take the following remedial action and report compliance

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Take notice that till the time the above remedial action is taken, all operations at your Cargo/Passenger terminal will remain suspended.

**Place of Issue:** .....

**Date of Issue:** .....

(Name and Signature of the surveyor issuing the certificate)

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

**Schedule-VII**

{ see rule 9(iii) }

**Government of ..... (Name of State Govt.)**

**Reference number:**

**Certificate of Compliance/conformity (in context of Schedule VI)**

**Name and address of Inland Port:**

**This is to certify that the Inland port (name of the port) ..... has been inspected to verify the compliance of deficiencies stated in Schedule VI. The port now is found to be complying with the requirements as stated in section 54G of the Inland Vessels Act, 1917 and therefore permitted to resume the operations.**

**The date of verification of compliance is .....**

**Place of Issue:** .....

**Date of Issue:** .....

(Name and Signature of the

Surveyor

Issuing the Certificate Surveyor)

(Seal or stamp of Issuing authority, as appropriate)

**Schedule VIII**

{ see rule 9 (i) }

**Government of ..... (Name of State Govt.)****Certificate of Compliance/conformity****(Issued under section 54F and 54H)**

Certificate/Serial number---.

Name and address of Inland Port:

This is to certify that the Inland port (name of the port) ..... has been inspected to verify the compliance of the relevant provisions with respect to equipment, material, containment, treatment and adequacy of reception facilities. The Inland port demonstrates the compliance of stated provisions and therefore Certificate of compliance or conformity is now issued to the Inland port. The validity of this compliance or conformity expires on ..... from the date of issue, but not later than a period of one year subject to the conditions stated below:

1. Prevention and preservation of inland water shall always be given priority over other operations.
2. Any incidents of oil pollution or chemical spillage affecting the port shall be notified to the issuing authority.
3. Any incident of casualty with respect to pollution affecting the port operations shall be notified to the issuing authority.
4. Any malfunction or defect of or in oily water equipment affecting prevention of pollution and preservation of inland water shall be notified to the issuing authority.
5. Any activity relating to new development in Inland port shall be immediately reported to the issuing authority for the purpose of conducting review in respect of any additional requirements.

The date of verification of compliance is .....

Place of Issue : .....

Date of Issue : .....

(Name of Signature of the  
Survey or Issuing the Statement)

(Seal or stamp of Issuing authority, as appropriate)

[F. No. NW-11015/1/2004-IWT (Vol. II)]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.